



भारत का राजपत्र The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 24] नई दिल्ली, शनिवार, जून 16—जून 22, 2012 (ज्येष्ठ 26, 1934)

No. 24] NEW DELHI, SATURDAY, JUNE 16—JUNE 22, 2012 (JYAISTHA 26, 1934)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग I—खण्ड 2

[PART I—SECTION 2]

[(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों व छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं]

[Notifications regarding Appointments, Promotions, Leaves etc. of Govt. Officers issued by the Ministries of the Govt. of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

राज्य सभा सचिवालय

नई दिल्ली-110001, दिनांक 28 मई 2012

सं. आरएस./6/4/2012/52-कार्मिक--श्री जिलउर रहमान हैदर, जिन्हें सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति के अध्यक्ष (श्री तारिक अनवर) के वैयक्तिक स्टॉफ में सह-पदावसान आधार पर वरिष्ठ निजी सचिव के रूप में नियुक्त किया गया था, की सेवाएं 18 मई, 2012 के अपराह्न से समाप्त की जाती हैं।

एस. रंगराजन, उप निदेशक

सं. आरएस./6/4/2012/53-कार्मिक--श्री जी. एम. एस. हक को 19 मई, 2012 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक राज्य सभा सचिवालय में सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति के अध्यक्ष (श्री तारिक अनवर) के वैयक्तिक स्टॉफ में 15,600--39,100/- रुपये के वेतन बैंड-3 + 6,600/- रुपये के ग्रेड वेतन में वरिष्ठ निजी सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है।

2. श्री जी. एम. एस. हक की नियुक्ति सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति के वर्तमान अध्यक्ष के विवेकाधीन है और उनके कार्यकाल के समापन के साथ ही समाप्त हो जाएगी।

एस. रंगराजन, उप निदेशक

दिनांक 1 जून 2012

सं. आरएस./20/1/2012/54-कार्मिक--श्री सुबोध कुमार पुरी, अधिशासी अधिकारी (स्वस्थाने) के स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के अनुरोध को स्वीकार किए जाने के परिणामस्वरूप वह 01 जून, 2012 के म. पू. से सेवानिवृत्त हो गए।

एस. रंगराजन, उप निदेशक

योजना आयोग

(भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण)

नई दिल्ली-110001, दिनांक 29 मई 2012

सं. ए-19011/30/2012-यू.आई.डी.ए.आई.--भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण, योजना आयोग, नई दिल्ली के दिनांक 16 मार्च, 2012 के पत्र सं. ए-12013/21 (ए.डी. जी.-चंडीगढ़)/09-यू.आई.डी.ए.आई. और बी.एस.एन.एल. के दिनांक 11.05.2012 के कार्यालय आदेश सं. स्टॉफ/ई-2/जे.ए.जी./एस.ए.जी./टी.एफ.आर./के.डब्ल्यू./II/121 के अनुसरण में श्री अमित सिंगल (आई.टी.एस.-89) ने दिनांक 11.05.2012 की (अपराह्न) से चंडीगढ़ स्थित क्षेत्रीय कार्यालय, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण में 37,400--67,000/- रुपये के वेतन बैंड + 8,700/- रुपये

के वेतन ग्रेड में प्रतिनियुक्ति के आधार पर तीन वर्षों की अवधि के लिए अथवा अगले आदेशों तक, इनमें से जो भी पहले हो, सहायक महानिदेशक के पद का कार्यभार संभाल लिया है।

अरुण कुमार सरकार, उप-निदेशक (स्था.)

विधि एवं न्याय मंत्रालय
(विधायी विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 23 मई 2012

सं. ए-32014/2/2005-प्रशा.-I (वि.वि.)--विधायी विभाग में सक्षम प्राधिकारी ने श्रीमती बी. हेमामालिनी आशुलिपिक ग्रेड 'डी' की विधि एवं न्याय मंत्रालय, विधायी विभाग में रु. 9,300--34,800/- के वेतन बैंड तथा रु. 4,800/- के ग्रेड वेतन में 03 जनवरी, 2012 की पूर्वाह्न से 06 माह की अवधि के लिए और अगले आदेशों के तदर्थ आधार पर गोपनीय अधीक्षक के पद पर नियुक्ति को अनुमोदित किया है।

2. यह तदर्थ नियुक्ति श्रीमती बी. हेमामालिनी को गोपनीय अधीक्षक के ग्रेड में न तो नियमित नियुक्ति के लिए कोई दावा करने का अधिकार प्रदान करेगी और न ही उनके द्वारा प्रदत्त तदर्थ सेवाओं की गणना इस ग्रेड में वरिष्ठता के प्रयोजनार्थ अथवा अगले उच्चतर ग्रेड में उनकी प्रोन्नति के लिए की जाएगी।

एम. आर. बीर, निदेशक (प्रशा.)

दिनांक 25 मई 2012

सं. ए-12025/1/2007-प्रशा.-I (वि.वि.)--विधायी विभाग में सक्षम प्राधिकारी ने विधि एवं न्याय मंत्रालय, विधायी विभाग में सहायक विधायी परामर्शी, श्री आर. के. पट्टनायक की विधि और न्याय मंत्रालय के उक्त विभाग में उप विधायी परामर्शी (भारतीय विधि सेवा का ग्रेड-III) के पद पर रु. 15,600--39,100/- के वेतन बैंड तथा रु. 7,600/- के ग्रेड वेतन में दिनांक 03.02.2012 से 02.05.2012 तक तथा 04.05.2012 से 03.08.2012 तक अथवा अगले आदेशों तक, इनमें से जो भी पहले हो, तदर्थ आधार पर नियुक्ति को अनुमोदित किया है।

2. यह तदर्थ नियुक्ति श्री आर. के. पट्टनायक को उप विधायी परामर्शी (भारतीय विधि सेवा का ग्रेड-III) के ग्रेड में नियमित नियुक्ति के लिए न तो कोई दावा करने का अधिकार प्रदान करेगी और न ही उनके द्वारा प्रदत्त तदर्थ सेवाओं की गणना इस ग्रेड में वरिष्ठता के प्रयोजनार्थ अथवा अगले उच्चतर ग्रेड में उनकी प्रोन्नति के लिए की जाएगी।

एम. आर. बीर, निदेशक (प्रशा.)

विधि कार्य विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 31 मई 2012

सं. ए-38012/01/2012-प्रशा.IV--(वि.का.)--सेवा-निवृत्ति की आयु प्राप्त करने पर श्री बी. के. कुलश्रेष्ठ, सहायक विधि सलाहकार, विधि

कार्य विभाग, विधि और न्याय मंत्रालय, दिनांक 31 मई, 2012 (अपराह) को सेवा निवृत्त हो गए हैं।

सतीश चन्द्रा, संयुक्त सचिव एवं विधि सलाहकार

सं. ए-38012/03/2012-प्रशा.IV--(वि.का.)--डॉ. ब्रह्म अवतार अग्रवाल, सचिव, विधि कार्य विभाग, विधि और न्याय मंत्रालय, दिनांक 31 मई, 2012 (अपराह) को सेवा निवृत्त हो गए हैं।

सतीश चन्द्रा, संयुक्त सचिव एवं विधि सलाहकार

गृह मंत्रालय

नई दिल्ली-110001, दिनांक 10 मई 2012

सं. I-11014/09/2011-आई.पी.एस-IV--केन्द्र सरकार, भारतीय पुलिस सेवा (संवर्ग) नियम, 1954 के नियम 5 के उप-नियम (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा जम्मू एवं कश्मीर, मध्य प्रदेश और केरल सरकारों की सहमति से, एतद्वारा श्रीमती एस. अजीथा बेगम भारतीय पुलिस सेवा (जम्मू एवं कश्मीर : 2008) का विवाह श्री एस. सतीश बिनो, भारतीय पुलिस सेवा (मध्य प्रदेश : 2008) के साथ हो जाने के आधार पर, श्रीमती एस. अजीथा बेगम, भारतीय पुलिस सेवा को जम्मू एवं कश्मीर से और श्री एस. सतीश बिनो, भारतीय पुलिस सेवा को मध्य प्रदेश से केरल के भारतीय पुलिस सेवा संवर्ग में स्थानान्तरित करती है।

राजेन्द्र कुमार, अनुभाग अधिकारी (आई.पी.एस.-IV)

नई दिल्ली, दिनांक 21 मई 2012

सं. ए-32014/5/2010-प्रशा.-I(क)--राष्ट्रपति, केन्द्रीय सचिवालय सेवा संवर्ग के निम्नलिखित निजी सचिवों जो वर्तमान में गृह मंत्रालय में तदर्थ आधार पर प्रधान निजी सचिव के रूप में स्थानापन्न रूप से कार्य कर रहे हैं, को कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 20.03.2012 एवं दिनांक 03.05.2012 के कार्यालय ज्ञापन सं. 3.3.2011-सी.एस.-2(क) के अनुसार वर्ष 2010 की प्रधान निजी सचिव की चयन सूची में उनके नाम शामिल होने के फलस्वरूप, उन्हें 20.03.2012 के पूर्वाह्न से गृह मंत्रालय संवर्ग में नियमित आधार पर प्रधान निजी सचिव के पद पर नियुक्त करते हैं :--

क्र. सं.	नाम	कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के उपर्युक्त का. ज्ञा. के अनुसार क्र. सं.	उप-संवर्ग जहां अधिकारी तैनात हैं
1	2	3	4
	सर्वश्री/श्रीमती		
1.	बिमला कथूरिया	41	सांख्यिकी एवं का. कार्यान्वयन
2.	महेन्द्र कुमार गौड़	147	सांख्यिकी एवं का. कार्यान्वयन
3.	एस. पी. गुप्ता	233	सांख्यिकी एवं का. कार्यान्वयन
4.	हुकुम सिंह	277	सांख्यिकी एवं का. कार्यान्वयन

1	2	3	4
5.	रुमा बिस्वास	282	सांख्यिकी एवं का. कार्यान्वयन
6.	उषा सभाचन्दानी	321	सांख्यिकी एवं का. कार्यान्वयन
7.	वी. एल. बाबू	400	प्रधान मंत्री कार्यालय
8.	राजेन्द्र कुमार	434	सांख्यिकी एवं का. कार्यान्वयन
9.	मीनू चक्रवर्ती	444	सांख्यिकी एवं का. कार्यान्वयन
10.	एम. के. सिंह	504	सांख्यिकी एवं का. कार्यान्वयन
11.	आर. के. नन्दी	513	सांख्यिकी एवं का. कार्यान्वयन
12.	के. श्रीनिवासन	514	सांख्यिकी एवं का. कार्यान्वयन
13.	संजीव चौहरा	533	प्रधान मंत्री कार्यालय
14.	एम. सी. कुकरेती	547	सांख्यिकी एवं का. कार्यान्वयन
15.	अशोक कुमार	566	सांख्यिकी एवं का. कार्यान्वयन
16.	अनीता सरोज	611	सांख्यिकी एवं का. कार्यान्वयन

जे. बी. शर्मा, अवर सचिव

नई दिल्ली-110001, दिनांक 05 जून 2012

सं. आई-14011/28/2011-आई.पी.एस.-1(I)--भारतीय पुलिस सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियम, 1955 के विनियम 7 के उप-विनियम (3) में निहित उपबंधों का प्रयोग करते हुए संघ लोक सेवा आयोग ने दिनांक 22.05.2012 को चयन समिति की दिनांक 22.03.2012 की बैठक में इसके द्वारा बनाई गई 2010 की उस चयन सूची को अनुमोदित कर दिया है जिसमें भारतीय पुलिस सेवा के उत्तराखण्ड संवर्ग में 6 मौलिक रिक्तियों को भरे जाने हेतु उत्तराखण्ड पुलिस सेवा के निम्नलिखित अधिकारियों का नाम शामिल किया गया है :--

चयन सूची-2010

क्र. सं.	नाम	जन्म तिथि
	(सर्व/श्री)	
1.	अजय जोशी	15.06.1959
2.	जगत राम जोशी	06.06.1960
3.	करन सिंह नागन्याल	02.06.1966
4.	नारायण सिंह नपलच्याल	28.01.1966
5.	रोशन लाल शर्मा	01.11.1959
6.	अशोक कुमार भट्ट	28.10.1958

प्रशान्त निकम, निदेशक (पुलिस)

उप-विनियम (1) के साथ पठित भारतीय पुलिस सेवा (भर्ती) विनियम, 1954 के विनियम 9 के उप-विनियम (1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उत्तराखण्ड राज्य पुलिस सेवा के निम्नलिखित सदस्यों को भारतीय पुलिस सेवा में परिवीक्षा पर नियुक्त करते हैं तथा उन्हें भारतीय पुलिस सेवा (संवर्ग) विनियम, 1954 के विनियम 5 के उप-विनियम (1) के अन्तर्गत उत्तराखण्ड प्रदेश संवर्ग प्रदान करते हैं :--

चयन सूची-2010

क्र. सं.	नाम	जन्म तिथि
	(सर्व/श्री)	
1.	अजय जोशी	15.06.1959
2.	जगत राम जोशी	06.06.1960
3.	करन सिंह नागन्याल	02.06.1966
4.	नारायण सिंह नपलच्याल	28.01.1966
5.	रोशन लाल शर्मा	01.11.1959
6.	अशोक कुमार भट्ट	28.10.1958

2. यह नियुक्तियां अधिसूचना के जारी होने की तिथि से प्रभावी होंगी।

प्रशान्त निकम, निदेशक (पुलिस)

नई दिल्ली, दिनांक 05 जून 2012

सं. आई-14011/06/2011-आईपीएस-1--संघ लोक सेवा आयोग द्वारा श्री प्रेम कुमार ठाकुर (जन्म तिथि : 28.02.1966) के नाम को भारतीय पुलिस सेवा के हिमाचल प्रदेश संवर्ग में पदोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए दिनांक 24.10.2011 को आयोजित चयन समिति की बैठक में इसके द्वारा बनाई गई 2010 की चयन सूची, जिसे आयोग ने दिनांक 15.12.2011 को अनुमोदित किया था तथा केन्द्रीय प्रशासनिक प्राधिकरण चण्डीगढ़, पीठ द्वारा ओ.ए. संख्या-1363 एच.पी./2011 में पारित आदेशों दिनांक 10.02.2012, 21.03.2012, 26.03.2012 एवं 30.03.2012 के अनुसार चयन सूची की वैधता अंतिम निर्णय तक बढ़ाई गई थी, उनके नाम को पत्र संख्या-7/6/2011-एआईएस, दिनांक 01.06.2012 के माध्यम से अंतिम रूप से शामिल किए जाने के परिणामस्वरूप राष्ट्रपति, भारतीय पुलिस सेवा (भर्ती) विनियम, 1954 के विनियम 9 के उप-विनियम (1) के साथ पठित भारतीय पुलिस सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियम, 1955 के विनियम 9 के उप-विनियम (1) के प्रतिबन्ध-2 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश राज्य पुलिस सेवा के सदस्य श्री प्रेम कुमार ठाकुर (जन्म तिथि : 28.02.1966) को भारतीय पुलिस सेवा में परिवीक्षा पर नियुक्त करते हैं तथा उन्हें भारतीय पुलिस सेवा (संवर्ग) विनियम, 1954 के विनियम 5 के उप-विनियम (1) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश संवर्ग प्रदान करते हैं। यह नियुक्ति अधिसूचना के जारी होने की तिथि से प्रभावी होगी।

बलदेव राज, अवर सचिव

सं. आई-14011/28/2011-आई.पी.एस.-1(II)--राष्ट्रपति, भारतीय पुलिस सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियम, 1955 के विनियम 9 के

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 14 मई 2012

सं. 13017/13/2011-अ.भा.से.(1)--भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग) नियमावली, 1954 के नियम 6(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और गृह मंत्रालय एवं आन्ध्र प्रदेश सरकार की सहमति से केन्द्र सरकार, श्री चोल्लेटी प्रभाकर, भा.प्र.से. (ए.जी.एम.यू.टी.: 2000) की ए.जी.एम.यू.टी. संवर्ग के आंध्र प्रदेश संवर्ग में अंतर संवर्गीय प्रतिनियुक्ति को उनके कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए एतद्वारा अनुमोदन प्रदान करती है।

एस. एस. शुक्ला, अवर सचिव

विदेश मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 27 अप्रैल 2012

सं. 09/पीबी-1/2012--भारतीय विदेश सेवा (ख) के सामान्य संवर्ग के एकीकृत ग्रेड II एवं III के अधिकारी श्री आर. एस. खोखर (जन्म तिथि : 02.03.1952), अधिवर्षिता की आयु प्राप्त कर लेने पर 31 मार्च, 2012 के अपराह्न में सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हो गए हैं।

दीपिका मिश्रा, प्रशासनिक अधिकारी (पीबी-1)

दिनांक 15 मई 2012

सं. 11/पीबी-1/2012--अधिवर्षिता की आयु प्राप्त कर लेने पर भारतीय विदेश सेवा (ख) के सामान्य संवर्ग के एकीकृत ग्रेड II एवं III के अधिकारी श्री एन. सोमन (जन्म तिथि : 23.04.1952), 30 अप्रैल, 2012 के अपराह्न में सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हो गए हैं।

2. दिनांक 02 मई, 2012 की समसंख्यक अधिसूचना का अधिक्रमण करते हुए यह अधिसूचना जारी की जा रही है।

दीपिका मिश्रा, प्रशासनिक अधिकारी (पीबी-1)

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 16 मई 2012

सं. 46 (फा. सं. ए 19013/11/2012-प्रशा.1)--कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 15.12.2011 के आदेश सं. 5/7/2011-सीएस-I(यू) के अनुसरण में, राष्ट्रपति, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के केन्द्रीय सचिवालय सेवा संवर्ग के नियमित अनुभाग अधिकारी, श्री बी. के. मंथन को दिनांक 30.03.2012 (पूर्वाह्न) से और अगले आदेशों तक, राजस्व विभाग में 6,600/- रुपये के ग्रेड वेतन सहित 15,600--39,100/- रुपये के पीबी-3 में तदर्थ आधार पर केन्द्रीय सचिवालय सेवा (अवर सचिव) के ग्रेड-I के रूप में नियुक्त करते हैं :-

(i) उपर्युक्त तदर्थ पदोन्नति अनियमित ग्रेड में बने रहने अथवा

नियमित नियुक्ति हेतु चयन सूची में शामिल करने अथवा केन्द्रीय सचिवालय सेवा के ग्रेड-I (अवर सचिव) में वरीयता का दावा करने का कोई अधिकार नहीं देगी।

(ii) इस तदर्थ नियुक्ति को किसी भी समय बिना कोई कारण बताए समाप्त किया जा सकता है।

(iii) श्री बी. के. मंथन की उपर्युक्त तदर्थ पदोन्नति श्री पी. आर. शर्मा बनाम केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण, नई दिल्ली के समक्ष लंबित यू ओ आई नायक ओए सं. 3294/2009 में अंतिम निष्कर्ष के अध्वधीन होगी।

(iv) 2003 के अनुभाग अधिकारियों की केन्द्रीय चयन सूची, केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण (कैट), नई दिल्ली के समक्ष लंबित विभिन्न आवेदनों में चुनौती के अधीन है। अतः, अवर सचिव ग्रेड में तदर्थ पदोन्नति कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के का. ज्ञा. सं. 6/7/2011-सीएस-I दिनांक 30.06.2011 में उल्लिखित विभिन्न ओए के परिणाम के भी अध्वधीन है।

वी. श्रीकुमार, अवर सचिव

दिनांक 18 मई 2012

सं. 47 (फा. सं. ए. 19012/5/2012-प्रशा.1)--राष्ट्रपति, श्री पंकज हजारिका भारतीय रक्षा लेखा सेवा (2000) को दिनांक 14.05.2012 (पूर्वाह्न) से चार वर्ष की अवधि के लिए अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, राजस्व विभाग में उप सचिव के रूप में नियुक्त करते हैं।

वी. श्रीकुमार, अवर सचिव

नई दिल्ली दिनांक 16 मई 2012

सं. 2012 का 7 (फा.सं. ए.32014/02/2011-प्रशा.1(क)--राष्ट्रपति, केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा (सीएसएसएस) के निम्नलिखित प्रधान निजी सचिवों (तदर्थ) को कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन सं. 3/3/2011-सीएस-I(ए), दिनांक 20 मार्च, 2012 के अनुसरण में उनके नाम के सामने दर्शाई गई तारीख से वेतन बैंड-3 (15,600--39,100/-) + 6,600/- रु. के ग्रेड वेतन में नियमित आधार पर प्रधान निजी सचिव (पीपीएस) नियुक्त करते हैं :-

क्र. सं.	नाम	नियमित पदोन्नति की तारीख
1	2	3
	(सर्वश्री/श्रीमती/कु.)	
1.	कमल रानी सोनी	20.03.2012
2.	मीना तुलिसयानी	20.03.2012
3.	गीता भूषण शर्मा	07.05.2012
4.	सतीश कुमार चौधरी	20.03.2012

1	2	3
5.	सुनील कुमार	20.03.2012
6.	ओ.पी. शर्मा	20.03.2012
7.	आर.एस. नेगी	20.03.2012
8.	राज पाल सिंह	20.03.2012
9.	विजय तकयार	20.03.2012
10.	दया चंद	20.03.2012
11.	मीनाक्षी गुप्ता	20.03.2012
12.	प्रेम लता नागर	01.05.2012
13.	रमन पाठक	20.03.2012
14.	दिनेश केमवाल	20.03.2012
15.	गुरपाल गौर सोनी	20.03.2012
16.	विक्रम नायर	26.03.2012
17.	टी. एम. कुरियन	20.03.2012
18.	प्रसन्ना कुमारी शर्मा	20.03.2012
19.	एम. के. जीरथ	20.03.2012
20.	विमला रानी	20.03.2012
21.	गीता राणा	20.03.2012

रेणुका नाम्बियार, अवर सचिव

1	2
4.	कांता कुमार
5.	संदीप बहल
6.	रविन्दर नाथ
7.	पी. एस. रावत
8.	ज्योति मिरानी
9.	ए. के. सामंता
10.	सतीश कुमार
11.	जगबीर सिंह
12.	चाणक्य केलकर
13.	चन्द्र शेखर छाबड़ा
14.	वीना बजाज
15.	सुधा शर्मा
16.	मुकेश कुमार
17.	नफे सिंह
18.	ए. के. सचदेवा
19.	जसोदा
20.	किरण लाकड़ा
21.	रोज मिंज
22.	महालक्ष्मी गोपालकृष्णन
23.	विनोद कुमार

2. अन्य सभी निबंधन एवं शर्तें पहले की तरह लागू रहेंगी।

रेणुका नाम्बियार, अवर सचिव

आर्थिक कार्य विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 17 मई 2012

सं. ए. 12011/4/2012-प्रशा.2--कार्मिक एवं प्रशिक्षण के दिनांक 10.05.2012 के का.ज्ञा. सं. ए-3/3/2011-सीएस-II के तहत चयनसूची वर्ष 2010 में उनके नाम शामिल किए जाने के परिणामस्वरूप, राष्ट्रपति, वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग में तदर्थ आधार पर सीएसएसएस संवर्ग के प्रधान निजी सचिव के पद पर कार्यरत निम्नलिखित अधिकारियों, जिन्हें नियमित नियुक्ति हेतु कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा सूची में शामिल किया गया है, को वेतन बैंड-3 (रु. 15,600-39,100+6,600/- ग्रेड वेतन) में 10.05.2012 के पूर्वार्द्ध से सीएसएसएस के प्रधान निजी सचिव के पद पर नियुक्त करते हैं :--

1. श्री सी. सोमनाथन
2. श्री योगेश शर्मा

अशोक कुमार, अवर सचिव

सं. 2012 का 8 [फा.सं. ए.32014/4/2012-प्रशा.1(क)]--व्यय विभाग (संवर्ग प्रशासनिक अनुभाग) के दिनांक 9 मई, 2012 के कार्यालय ज्ञापन सं. 32014/02/2008-सीएस के अनुसरण में, राष्ट्रपति, केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा (सीएसएसएस) के (निजी सचिव के रूप में पदनामित) आशुलिपिक ग्रेड 'क एवं ख' (विलयित) के रूप में निम्नलिखित अधिकारियों की तदर्थ आधार पर नियुक्ति को दिनांक 30.09.2012 तक की अवधि के लिए अथवा नियमित अधिकारी उपलब्ध होने तक अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, आगे बढ़ाते हैं :--

क्र. सं.	नाम
1	2
	(सर्वश्री/श्रीमती/कु.)
1.	एन. अलामेल मंगई
2.	भगत सिंह
3.	प्रताप सिंह परमार

सं. ए-12011/4/2012-प्रशा.2--कार्मिक एवं प्रशिक्षण के दिनांक 20.03.2012 के का.ज्ञा. सं. ए-3/3/2011-सीएस-II के तहत चयनसूची वर्ष 2010 में उनके नाम शामिल किए जाने के परिणामस्वरूप, राष्ट्रपति, वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग में तदर्थ आधार पर सीएसएसएस संवर्ग के प्रधान निजी सचिव के पद पर कार्यरत निम्नलिखित अधिकारियों, जिन्हें नियमित नियुक्ति हेतु कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा सूची में शामिल किया गया है, को वेतन बैंड-3 (रु. 15,600-39,100+6,600/- ग्रेड वेतन) में 20.03.2012 के पूर्वान्तिन से सीएसएसएस के प्रधान निजी सचिव के पद पर नियुक्त करते हैं :--

1. श्री आर. एल. वी. प्रसाद राव
2. श्री ए. के. प्रसाद
3. श्री राजेन्द्र कुमार
4. श्री विरेन्द्र अग्रवाल
5. श्रीमती निशा अरोड़ा
6. श्रीमती सरला ताहिलियानी
7. श्रीमती नीरू पराशर
8. श्रीमती साधना वासवानी
9. श्रीमती इंद्रा रानी बहल
10. श्रीमती वीना सचदेव
11. श्री एम. पी. खरबंदा (सरकारी सेवा से 30.4.2012 को सेवानिवृत्त)
12. श्री चांगटि वेंकट रमण मूर्ती
13. श्री विजय सिंह रोहिल्ला
14. श्री एम. पी. वर्धाराजन
15. श्री देवेन्द्र सिंह
16. श्री एच. के. चावला
17. श्री विजय कुमार गुलाटी
18. श्री गोपीलाल मानेवार

अशोक कुमार, अवर सचिव

वस्त्र मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 25 मई 2012

सं. 1/38/2010-निफ्ट--राष्ट्रपति, श्री पी. के. गेरा, भारतीय प्रशासनिक सेवा (गुजरात:85) को 21 मई, 2012 के पूर्वान्तिन से तीन वर्ष की अवधि के लिए अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो,

रु. 37,400--67,000+रु. 10,000/- (ग्रेड पे) के वेतनमान में प्रतिनियुक्ति आधार पर महानिदेशक, राष्ट्रीय फैशन टेक्नालॉजी संस्थान के रूप में नियुक्त करते हैं।

संगीता राव, अवर सचिव

रसायन और उर्वरक मंत्रालय

(उर्वरक विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 20 जनवरी 2012

सं. ए-47011/01/2011-मा.सं.-II--सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के दिनांक 27.12.2011 के आदेश सं. 12015/2/2011-एसएसएस (पी) के अनुसरण में अधीनस्थ सांख्यिकी सेवा के श्री अशोक कुमार सिंह (ईसी-3830), सांख्यिकी अन्वेषक, ग्रेड-I (समूह-'ख' राजपत्रित), को 16.01.2012 (पूर्वान्तिन) से पे-बैंड (पीबी-2) 9,300-34,800/- रुपए के ग्रेड पे 4,600/- रुपए में वरिष्ठ अन्वेषक के रूप में उर्वरक विभाग की कर्मचारी सूची में शामिल किया जाता है।

2. श्री अशोक कुमार सिंह को राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन (फील्ड प्रचालन प्रभाग) से दिनांक 13 जनवरी, 2012 (अपराह्न) को कार्यभार मुक्त किया गया था और उन्होंने 14 तथा 15 जनवरी, 2012 को अवकाश होने के कारण 16 जनवरी, 2012 (पूर्वान्तिन) को उर्वरक विभाग में कार्यभार ग्रहण किया था। चूंकि उन्होंने अपने खर्च पर स्थानांतरण के लिए अनुरोध किया था अतः वे कार्यभार ग्रहण अवधि परिवहन भत्ता, वेतन अग्रिम आदि के पात्र नहीं हैं।

पी. बी. साहू, अवर सचिव

दिनांक 26 मार्च 2012

सं. ए-19011/2/2012-मा.सं.II--राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय के दिनांक 09.02.2012 के कार्यालय आदेश सं. 5/16/2011-रा.भा. (सेवा) के अनुसरण में श्री बी. पी. जोशी, सहायक निदेशक (रा.भा.), पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय को 29.02.2012 (पूर्वान्तिन) से उर्वरक विभाग में पीबी-3 के पे-बैंड रुपए (15,600-39,100/-) में रु. 6,600/- के ग्रेड-पे में तदर्थ आधार पर उप निदेशक (राजभाषा) के रूप में नियुक्त किया जाता है।

पी. बी. साहू, अवर सचिव

सं. ए-12011/7/2008-मा.सं.II--राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय के दिनांक 10.02.2012 के कार्यालय आदेश सं. 5/15/2011-रा.भा. (सेवा) के अनुसरण में श्री देवी प्रसाद मिश्र, वरिष्ठ अनुवादक (रा.भा.), आसूचना ब्यूरो, गृह मंत्रालय, नई दिल्ली को 02.03.2012 (पूर्वान्तिन) से उर्वरक विभाग में पीबी-3 के पे-बैंड रुपए (15,600-39,100/-) में रु. 5,400/- के ग्रेड-पे में तदर्थ आधार पर सहायक निदेशक (राजभाषा) के रूप में नियुक्त किया जाता है।

पी. बी. साहू, अवर सचिव

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय
(जैवप्रौद्योगिकी विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 29 मई 2012

सं. ए-32011/01/2011-स्था.--एआईसीटीई, नई दिल्ली में प्रतिनियुक्ति से प्रत्यावर्तन के परिणामस्वरूप, राष्ट्रपति, इस विभाग में वैज्ञानिक 'ई' (एनबीडीबी) के पद पर नियुक्त श्री संदीप सरीन को फ्लेक्सिबल कम्प्लीमेंटिंग स्कीम के तहत इन-सीटू पदोन्नति पर वेतनमान पी.बी-4, 37,400-67,000/- रुपये + 8,900/- रुपये के ग्रेड वेतन के साथ 29 मई, 2012 पूर्वाह्न से और अगले आदेशों तक वैज्ञानिक 'एफ' के पद पर सहर्ष नियुक्त करते हैं।

बीना ई. चक्रवर्ती, अवर सचिव

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

नई दिल्ली-110108, दिनांक 23 मई 2012

सं. ए-12025/24/2008-सी. एच. एस.-1--राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिशों पर डॉ. रीना कुमारी शर्मा को अगले आदेशों तक 2 दिसम्बर, 2009 के पूर्वाह्न से अस्थायी तौर पर केंद्रीय स्वास्थ्य सेवा के चिकित्सा अधिकारी ग्रेड में वेतनमान पीबी-3 (रु.15,600-39,100) + 5,400/- रुपये पर नियुक्त करती हैं। डॉ. रीना कुमारी शर्मा की तैनाती अखिल भारतीय स्वच्छता और जन स्वास्थ्य संस्थान, कोलकाता में चिकित्सा अधिकारी के रूप में की जाती है। वे दो वर्षों तक परिवीक्षा पर रहेंगी।

एम. के. शरवर, अवर सचिव

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 11 मई 2012

सं. ए-22012/3/2012-स्था.III--आर्थिक मामले विभाग के दिनांक 5.8.2012 के आदेश संख्या पी-3/2011 के अनुसरण में, श्री जे. राजेश कुमार ने स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में संयुक्त निदेशक, समूह-'क' राजपत्रित पद, के रूप में आईईएस के कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड (पीबी-3 में 7,600/- रुपए ग्रेड पे) के पद का कार्यभार 4.5.2012 (पूर्वाह्न) से ग्रहण कर लिया है।

अनिल कुमार, अवर सचिव

कृषि मंत्रालय
(कृषि और सहकारिता विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 23 अप्रैल 2012

सं. ए-19012/9/2007-ईए I--श्रीमती रुग्मिणी परमार, सलाहकार, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की आर्थिक मामले विभाग (आईईएस प्रभाग) द्वारा उनकी फा. सं. 13016/2/2012-आईईएस के तहत जारी दिनांक 2.4.2012 के आदेश सं. टी. 14/2012 के अनुसार आर्थिक सलाहकार, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के पद पर नियुक्ति के

परिणामस्वरूप उन्हें 02.04.2012 के पूर्वाह्न से कार्यभार से मुक्त किया जाता है।

ए. के. अरोड़ा, अवर सचिव

पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 31 मई 2012

सं. ए-15012/02/2012-प्रशासन-1--इस विभाग में अनुभाग अधिकारी के पद पर कार्यरत श्रीमती नूतन वाधी को अधिवर्षिता की आयु पूरी करने पर 31.05.2012 के अपराह्न से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त किया जाता है।

आर. एस. जयाल, अवर सचिव

सं. ए-19011/12/2012-प्रशासन-1--राष्ट्रपति, श्री गोकुल चन्द्र पति, आई.ए.एस. (ओ.आर. : 78) को डीओपी एंड टी के आदेश संख्या 9/26/2012-ईओ (एस.एम. 1), दिनांक 26 मई, 2012 के तहत पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग में उनकी तैनाती होने पर दिनांक 01.06.2012 के पूर्वाह्न से सचिव के रैंक और वेतन में विशेष कार्य अधिकारी के तौर पर शीर्ष स्केल में नियुक्त करते हैं।

आर. एस. जयाल, अवर सचिव

नई दिल्ली-110001, दिनांक 5 जून 2012

सं. 2-37/2010-मात्स्यिकी (प्रशासन)--राष्ट्रपति, (1) श्री सिजो पी. वर्गीस, (2) श्री विनोद कुमार मुदुमाला, और (3) श्री एस. रामाचन्द्रन को कृषि मंत्रालय, पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग के अंतर्गत भारतीय मात्स्यिकी सर्वेक्षण, मुम्बई में क्रमशः (1) 27.2.2012 (पूर्वाह्न) (2) 27.2.2012 (पूर्वाह्न) तथा (3) 24.2.2012 (पूर्वाह्न) से 15,600-39,100/- रुपए के वेतन बैंड (पी बी-3) + 6,600/- रुपए ग्रेड वेतन में वरिष्ठ मात्स्यिकी वैज्ञानिक के पद (सामान्य केंद्रीय सेवा, समूह 'क' राजपत्रित, अननुसचिवीय) पर अस्थायी क्षमता में तथा अगले आदेशों तक नियुक्त करते हैं।

सुदीपा कोहली, अवर सचिव

पंचायती राज मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 21 मई 2012

सं. ए-19012/1/2010-स्था.--श्री भारत भूषण, सहायक निदेशक, पंचायती राज मंत्रालय अधिवर्षिता की आयु प्राप्त होने पर दिनांक 30 अप्रैल, 2012 के अपराह्न से सरकारी सेवा से निवृत्त हो गए हैं।

आर. शिव कुमार, अवर सचिव

मानव संसाधन विकास मंत्रालय
(उच्चतर शिक्षा विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 25 मई 2012

सं. एफ. 15-2467/2009 ई.-I--दिनांक 24 मई, 2012 के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के आदेश संख्या 4/16/2012-ई.ओ.(एसएम-I) के द्वारा सुश्री विभा पुरी दास, आईएस (उत्तराखंड : 76) के मानव संसाधन विकास मंत्रालय (उच्चतर शिक्षा विभाग) से जनजातीय कार्य मंत्रालय में स्थानांतरण के परिणामस्वरूप उन्होंने 25 मई, 2012 के पूर्वाह्न से सचिव, उच्चतर शिक्षा विभाग का कार्यभार छोड़ दिया है।

राजेश कुमार सिंह, अवर सचिव

सं. एफ.15-2405/2008 ई.-I--राष्ट्रपति, वर्तमान में उच्चतर शिक्षा विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय में विशेष सचिव श्री अशोक ठाकुर, आईएस (हिमाचल प्रदेश:77) को 25 मई, 2012 के पूर्वाह्न से उच्चतर शिक्षा विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय में सचिव, उच्चतर शिक्षा विभाग के रूप में नियुक्त करती है।

राजेश कुमार सिंह, अवर सचिव

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 21 मई 2012

सं. 4-37/2009 प्रशा.--कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 17/04/2012 के पत्र सं. 9/20/2012-ई.ओ (एस.एम-I) के अनुसरण में राष्ट्रपति, श्री सुधीर कुमार भारतीय प्रशासनिक सेवा (उ.प्र.-78) को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय में दिनांक 17.04.2012 से स्वस्थाने आधार पर अपर सचिव के पद को अस्थायी रूप से उन्नत करते हुए विशेष सचिव के पद पर नियुक्त करते हैं।

नवीन यादव, अवर सचिव

दिनांक 27 मार्च 2012

सं. 4-12/2008-प्रशा.-महिला एवं बाल विकास मंत्रालय में अवर सचिव श्री बृष भान गुप्ता, अधिवर्षिता की आयु पूरी हो जाने के कारण दिनांक 31.03.2012 के अपराह्न से सरकारी सेवा से सेवा निवृत्त हो गए हैं।

नवीन यादव, अवर सचिव

दिनांक 25 अप्रैल 2012

सं. 22-39/2011-प्रशासन--आर्थिक कार्य विभाग के दिनांक 10.04.2012 के पत्र सं. 13016/3/2011 आईएस के अनुसरण में राष्ट्रपति श्री अमित रे, (आईएस:95) रु. 37,400-67,000/- (पे-बैंड-4)

के रु. 8,700/- के पे बैंड के साथ महिला एवं बाल विकास मंत्रालय में 20 अप्रैल, 2012 (पूर्वाह्न) से अगले आदेश तक निदेशक के पद पर नियुक्त करते हैं।

नवीन यादव, अवर सचिव

दिनांक 1 मई 2012

सं. 5-2/2012 प्रशा.--कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 20 मार्च, 2012 के का. ज्ञा. सं. 3/3/2011-सी.एस.II (ए.) के द्वारा वर्ष 2010 की चयन सूची में श्री सुनील सहगल, निजी सचिव का नाम सी.एस.एस.एस. के प्रधान निजी सचिव (पी.पी.एस.) के ग्रेड में शामिल किए जाने के फलस्वरूप, राष्ट्रपति, श्री सुनील सहगल, निजी सचिव को 19.4.2012 (पूर्वाह्न) से महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के सी.एस. एस.एस. संवर्ग में 6,600/- रुपये के ग्रेड वेतन के साथ, वेतन बैंड-3, 15,600-39,100/- रुपये में नियमित आधार पर प्रधान निजी सचिव (पी.पी.एस.) के रूप में नियुक्त करती है।

नवीन यादव, अवर सचिव

जनजातीय कार्य मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 17 मई 2012

सं. 11019/2/2005-स्थापना--वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग के दिनांक 04.05.2012 के कार्यालय आदेश सं. 13016/2/2012-आईएस के अनुसरण में राष्ट्रपति, जनजातीय कार्य मंत्रालय में आर्थिक सलाहकार श्री एस. एन. तोब्रिया को कृषि लागत और मूल्य आयोग (सीएसीपी), कृषि मंत्रालय में आर्थिक सलाहकार के रूप में नया कार्यभार ग्रहण करने के लिए दिनांक 17.05.2012 अपराह्न से कार्यमुक्त करते हैं।

2. दिनांक 17.05.2012 से इस मंत्रालय में आर्थिक सलाहकार श्री एस. एन. तोब्रिया की सेवाएं कृषि लागत और मूल्य आयोग (सीएसीपी), कृषि मंत्रालय को सौंपी जाती हैं।

एन. रामाकृष्णन, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 25 मई 2012

सं. 19011/5/2012-स्थापना--राष्ट्रपति, श्रीमती, विभा पुरी दास, आई.एस. (उत्तराखण्ड:76) को जनजातीय कार्य मंत्रालय में दिनांक 25.05.2012 के पूर्वाह्न से सचिव के पद पर नियुक्त करते हैं।

पूर्णमा दुडू, अवर सचिव

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
(इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग)

नई दिल्ली-110 003, दिनांक 22 मई 2012

सं. 3(9)/2010-का.I--राष्ट्रपति जी ने इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के निम्नलिखित वैज्ञानिक 'डी' को पदोन्नत होने पर

दिनांक 18.05.2012 से 8,700/- रु. प्रतिमाह के ग्रेड वेतन सहित 37,400--67,000/- रु. के वेतन बैंड-4 में वैज्ञानिक 'ई' नियुक्त किया है। इनकी नियुक्ति उड़ीसा उच्च न्यायालय द्वारा वर्ष 2005 की रिट याचिका (सी) सं. 7080 में लिए गए निर्णय, जिसका फैसला दिनांक 26.09.2008 को सुनाया गया, पर राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (एनआईसी) द्वारा भारत के उच्चतम न्यायालय में दायर की गई विशेष याचिका के अंतिम नतीजे पर निर्भर करेगी।

क्र. सं.	नाम
1.	श्री डी. पी. सिंह (कर्मचारी कोड सं. 253)
2.	श्री रमेश चन्द (कर्मचारी कोड सं. 258)

गिरीश सहाय, संयुक्त निदेशक

सं. 3(9)/2010-का.1-राष्ट्रपति जी ने इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के निम्नलिखित वैज्ञानिक 'बी' को पदोन्नत होने पर दिनांक 18.05.2012 से 6,600/- रु. प्रतिमाह के ग्रेड वेतन सहित 15,600--39,100/- रु. के वेतन बैंड-3 में वैज्ञानिक 'सी' नियुक्त किया है। इनकी नियुक्ति उड़ीसा उच्च न्यायालय द्वारा वर्ष 2005 की रिट याचिका (सी) सं. 7080 में लिए गए निर्णय, जिसका फैसला दिनांक 26.09.2008 को सुनाया गया, पर राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (एनआईसी) द्वारा भारत के उच्चतम न्यायालय में दायर की गई विशेष याचिका के अंतिम नतीजे पर निर्भर करेगी।

क्र. सं.	नाम
1.	श्री श्रीमती रुचि गोला (कर्मचारी कोड सं. 952)
2.	श्री भूपेन्द्र सिंह अवास्य (कर्मचारी कोड सं. 953)
3.	श्री मोहम्मद अकरम खान (कर्मचारी कोड सं. 956)
4.	श्री सनी अभिलाष जी.आई. (कर्मचारी कोड सं. 958)
5.	श्री आशुतोष बहुगुणा (कर्मचारी कोड सं. 959)
6.	श्री नूरुल अमीन ए. (कर्मचारी कोड सं. 962)

गिरीश सहाय, संयुक्त निदेशक

दिनांक 31 मई 2012

सं. 4(465)/89-कार्मिक-I--इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में संयुक्त निदेशक, श्री सतवीर सिंह (कर्मचारी कोड सं. 215) अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर दिनांक 31.05.2012 को सेवानिवृत्त हो रहे हैं।

गिरीश सहाय, संयुक्त निदेशक

सं. 16(3)/2011-का.-I--अनुभाग अधिकारी के पद के लिए सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा 2010 को रद्द करने के दिनांक 26.04.2012

के आदेश संख्या 16(3)/2011-कार्मिक-I के फलस्वरूप, दिनांक 10.09.2010 की अधिसूचना संख्या 3(2) 2010-कार्मिक-I, जिसके लिए निम्नलिखित अधिकारियों की अनुभाग अधिकारी के पद पर पदोन्नति की गई थी, को रद्द किया गया है।

- (1) श्रीमती अन्सा जॉन
- (2) श्री देवेन्द्र पाल
- (3) श्री टी. पी. मोहन

गिरीश सहाय, संयुक्त निदेशक

राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केन्द्र

नई दिल्ली-110003, दिनांक 29 मई 2012

सं. पीएफ/39/एनआईसी/2012-प्रशा. I--इलेक्ट्रॉनिकी व सूचना-प्रौद्योगिकी विभाग, नई दिल्ली में प्रमाणन प्राधिकारी नियंत्रक के रूप में अपने चयन के परिणामस्वरूप राष्ट्रपति एतद्वारा श्री टी. ए. खान, कर्मचारी कोड सं. 39 का वैज्ञानिक-जी (उपमहानिदेशक) के पद से राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केन्द्र, नई दिल्ली से 28 मई, 2012 की अपराह्न से तकनीकी त्याग-पत्र स्वीकार करते हैं और उन्हें उसी दिन से ड्यूटी से कार्यमुक्त किया जाता है।

आर. एम. नायर, संयुक्त निदेशक (प्रशा. I)

दिनांक 30 मई 2012

सं. पीएफ/6628/एनआईसी/2011-प्रशा. I--राष्ट्रपति, एतद्वारा सुश्री जिज्ञासा बिसारिया, (कर्मचारी कोड सं. 6628) का रासूविकेंद्र-मुख्यालय, नई दिल्ली में वैज्ञानिक 'सी' के पद से त्याग-पत्र दिनांक 18.01.2012 की अपराह्न से स्वीकार कर लिया है और उन्हें उसी दिन से ड्यूटी से कार्यमुक्त किया जाता है।

आर. एम. नायर, संयुक्त निदेशक (प्रशा. I)

दिनांक 31 मई 2012

सं. पीएफ/2657/एनआईसी/2012-प्रशा. I--डॉ. वी. सुब्बा राव, वैज्ञानिक-ई (कर्मचारी कोड सं. 2657), राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केन्द्र, नई दिल्ली से 31 मई, 2012 की अपराह्न से सरकारी सेवा से अधिवर्षिता पर सेवानिवृत्त हो रहे हैं और उन्हें उसी दिन से ड्यूटी से कार्यमुक्त किया जाता है।

आर. एम. नायर, संयुक्त निदेशक (प्रशा. I)

नई दिल्ली-110003, दिनांक 31 मई 2012

सं. 6117/एनआईसी/2012-प्रशा. II--महानिदेशक, रासूवि केन्द्र एतद्वारा सुश्री दिव्या शर्मा (कर्मचारी कोड सं. 6117) का रासूवि केंद्र मुख्यालय, नई दिल्ली, में वैज्ञानिक अधिकारी/इंजीनियर 'एस.बी', के पद से त्याग-पत्र दिनांक 31.05.2012 की अपराह्न से स्वीकार कर लिया है और उन्हें उसी दिन से ड्यूटी से कार्यमुक्त किया जाता है।

सुभाष दत्ता, उप निदेशक (प्रशा. II)

रेल मंत्रालय

(रेलवे बोर्ड)

नई दिल्ली, दिनांक 22 मई 2012

सं. ईआरबी-1/2011/2/60--श्री निहार रंजन दास, एसजी/आईआरएसईई, निदेशक, बिजली इंजीनियरी (विकास), रेलवे बोर्ड को वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड में पदोन्नत किया गया है और उन्हें दिनांक 07.05.2012 के अपराह्न

से कार्यपालक निदेशक, बिजली इंजीनियरी (विकास), रेलवे बोर्ड के रूप में नियुक्त किया गया है।

विजय कुमार गुप्ता, सचिव
(रेलवे बोर्ड)

जल संसाधन मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 23 मई 2012

सं. 3/2012 फा. सं. 2/3/2011-प्रशा.--राष्ट्रपति, श्री सुनील कुमार कोहली (आईडीएस : 1981) को वेतन बैंड-4, 37,400--67,000/- रु. + 10,000/- रु. (ग्रेड वेतन) के वेतनमान में दिनांक 21.5.2012, के पूर्वाह्न से पांच वर्षों के लिए अथवा आगामी आदेशों तक, जो भी पहले हो, जल संसाधन मंत्रालय में संयुक्त सचिव एवं वित्तीय सलाहकार के पद पर नियुक्त करते हैं।

एल. पी. शर्मा, अवर सचिव

RAJYA SABHA SECRETARIAT

New Delhi-110001, the 28th May 2012

No. RS/6/4/2012/52-Perl.—The services of Shri Zillur Rahman Haider, who had been appointed as Senior Private Secretary on co-terminus basis in the Rajya Sabha Secretariat in the personal staff of Chairman, Committee on Papers Laid on the Table (Shri Tariq Anwar) stand terminated w.e.f. the afternoon of 18.05.2012.

S. RANGARAJAN, Dy. Dir.

No. RS/6/4/2012/53-Perl.—Shri G. M. S. Haque has been appointed as Senior Private Secretary in the Rajya Sabha Secretariat in the Pay Band-3 of Rs. 15,600—39,100/- + Grade Pay of Rs. 6,600/- in the personal staff of Chairman, Committee on Papers Laid on the Table (Shri Tariq Anwar), with effect from the forenoon of 19th May, 2012, until further orders.

2. The appointment of Shri G. M. S. Haque is at the discretion of the present Chairman, Committee on Papers Laid on the Table and will be co-terminus with the term of his office.

S. RANGARAJAN, Dy. Dir.

The 1st June 2012

No. RS/20/1/2012/54-Perl.—Consequent on the acceptance of his request for Voluntary Retirement, Shri Subodh Kumar Puri, Executive Officer (in-situ), retired from service with effect from the forenoon of 1st June, 2012.

S. RANGARAJAN, Dy. Dir.

PLANNING COMMISSION

UNIQUE IDENTIFICATION AUTHORITY OF INDIA

New Delhi-110001, the 29th May 2012

No. A-19011/30/12-UIDAI—In pursuance of Unique Identification Authority of India, Planning Commission, New Delhi letter No. A-12013/21(ADG-Chandigarh)/09-UIDAI dated 16th March, 2012 and BSNL Office Order No. Staff/E-2/JAG/SAG/Tfr/KW/II/121 dated 11.05.12. Shri Amit Singal (ITS-89), has assumed the charge of Assistant Director General (ADG) in the Regional Office of Unique Identification Authority of India in Chandigarh w.e.f. 11.05.2012 (AN) in the Pay Band of Rs. 37,400—67,000/- + Grade Pay of Rs. 8,700/- on deputation basis for a period of three years or until further orders, whichever is earlier.

A. K. SARKAR, Dy. Dir. (Estt.)

MINISTRY OF LAW & JUSTICE

(LEGISLATIVE DEPARTMENT)

New Delhi, the 23rd May 2012

No. A-32014/2/2005-Admn. I (L.D.)—The Competent Authority in the Legislative Department has approved the appointment of Smt. B. Hemamalini, Stenographer Grade 'D' to the post of Confidential Superintendent in the Pay Band of Rs. 9,300—34,800/- plus Grade Pay of Rs. 4,800/- in the Legislative Department of Ministry of Law and Justice on ad hoc basis for a period of six months with effect from the forenoon of 3rd January, 2012 and until further orders.

2. This ad-hoc appointment will not bestow on Smt. B. Hemamalini any claim for regular appointment whatsoever to the grade of Confidential Superintendent nor the ad hoc services rendered by her will count for the purpose of seniority in the grade or for her promotion to the next higher grade.

M. R. BEERH, Dir. (Admn.)

The 25th May 2012

No. A-12025/1/2007-Admn. I (L.D.)—The Competent Authority in the Legislative Department has approved the appointment of Shri R. K. Pattanyak, Assistant Legislative Counsel in the Legislative Department, Ministry of Law and Justice to the post of Deputy Legislative Counsel (Grade III of Indian Legal Service) in the Pay Band of Rs. 15,600—39,100/- plus Grade Pay of Rs. 7,600/- in the said Department of Ministry of Law and Justice on ad hoc basis for a period from 03.02.2012 to 02.05.2012 and 04.05.2012 to 03.08.2012 or until further orders, whichever is earlier.

2. This ad-hoc appointment will not bestow on him any claim for regular appointment whatsoever to the grade of Deputy Legislative Counsel (Grade III of ILS) nor the ad hoc services rendered by him will count for the purpose of seniority in the grade or for their promotion to the next higher grade.

M. R. BEERH, Dir. (Admn.)

DEPARTMENT OF LEGAL AFFAIRS

New Delhi, the 31st May 2012

No. A-38012/01/2012-Admn. IV (LA)—On attaining the age of superannuation, Shri B. K. Kulshreshtha, Assistant Legal Adviser retires from Government Service with effect from the afternoon of 31st May, 2012.

SATISH CHANDRA, Jt. Secy. & Legal Adviser

No. A-38012/03/2012-Admn. IV (LA)—Dr. Brahm Avtar Agrawal, Secretary, Department of Legal Affairs, Ministry of

Law and Justice superannuates with effect from the afternoon of 31st May, 2012.

SATISH CHANDRA, Jt. Secy. & Legal Adviser

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

New Delhi, the 10th May 2012

No. I-11014/09/2011/IPS. IV—In exercise of the powers conferred under Sub-Rule (2) of 5 of the Indian Police Service (Cadre) Rules, 1954, and with the concurrence of the Government of Jammu & Kashmir, Madhya Pradesh and Kerala, the Central Government hereby transfers Smt. S. Ajeetha Begum, IPS (JK : 2008) from Jammu & Kashmir and Shri S. Sateesh Bino, IPS (MP : 2008) from Madhya Pradesh to the IPS Cadre of Kerala on the ground of their marriage.

RAJINDER KUMAR, Section Officer (IPS-IV)

New Delhi, the 21st May 2012

No. A-32014/5/2012-Ad. I(A)—The President is pleased to appoint the following Private Secretaries of CSSS cadre, who are presently officiating as Principal Private Secretary on ad-hoc basis, as Principal Private Secretary on regular basis in the Ministry of Home Affairs Cadre Unit with effect from the forenoon of 20.03.2012, consequent upon inclusion of their names in the Select List of Principal Private Secretary for the Select List Year 2010 in terms of the DoPT's OM No. 3/3/2011-CS. II(A) dated 20.03.2012 and 3/3/2011-CS. II(A) (Pt. III) dated 03.05.2012 :—

S. No.	Name	Sl. No. as per DoPT's above referred O.M.	Sub-Cadre where the officer is posted
S/Shri/Smt.			
1.	Bimla Kathuria	41	M/o Stat. & PI
2.	Mahender K. Gaur	147	M/o Stat. & PI
3.	S. P. Gupta	233	M/o Stat. & PI
4.	Hukum Singh	277	M/o Stat. & PI
5.	Rooma Biswas	282	M/o Stat. & PI
6.	Usha Sabhachandani	321	M/o Stat. & PI
7.	V. L. Babu	400	PMO
8.	Rajender Kumar	434	M/o Stat. & PI
9.	Meenu Chakravarty	444	M/o Stat. & PI
10.	M. K. Singh	504	M/o Stat. & PI
11.	R. K. Nandi	513	M/o Stat. & PI
12.	K. Srinivasan	514	M/o Stat. & PI
13.	Sanjeev Vohra	533	PMO
14.	M. C. Kukreti	547	M/o Stat. & PI
15.	Ashok Kumar	566	M/o Stat. & PI
16.	Anita Saroj	611	M/o Stat. & PI

J. B. SHARMA, Under Secy.

New Delhi, the 5th June 2012

No. I-14011/28/2011-IPS. I (I)—In exercise of the provisions contained in Sub-regulation (3) of Regulation 7 of the Indian Police Service (Appointment by Promotion) Regulations, 1955, the Union Public Service Commission has on 22.05.2012, approved the Select List of 2010 prepared by the Selection Committee in its meeting held on 22.03.2012, containing the names of the following State Police Service Officers of Uttarakhand towards filling 6 (Six) Substantive Vacancies in the IPS of Uttarakhand Cadre :—

Select List-2010

Sl. No.	Name	Date of Birth
S/Shri		
1.	Ajay Joshi	15.06.1959
2.	Jagat Ram Joshi	06.06.1960
3.	Karan Singh Nagniyal	02.06.1966
4.	Narayan Singh Napalchyal	28.01.1966
5.	Roshan Lal Sharma	01.11.1959
6.	Ashok Kumar Bhatt	28.10.1958

PRASHANT NIKAM, Dir. (Police)

No. I-14011/28/2011-IPS. I (II)—In exercise of the powers conferred by Sub-rule (1) of rule (9) of the Indian Police Service (Recruitment) Rules, 1954, read with Sub-regulation (1) of regulation 9 of the Indian Police Service (Appointment by Promotion) Regulations, 1955, the President is pleased to appoint the following members of Uttarakhand Police Service to the Indian Police Service on probation and to allocate them to the Uttarakhand Cadre under sub-rule (1) of the rule 5 of the Indian Police Service (Cadre) Rules, 1954 :—

Select List-2010

Sl. No.	Name	Date of Birth
S/Shri		
1.	Ajay Joshi	15.06.1959
2.	Jagat Ram Joshi	06.06.1960
3.	Karan Singh Nagniyal	02.06.1966
4.	Narayan Singh Napalchyal	28.01.1966
5.	Roshan Lal Sharma	01.11.1959
6.	Ashok Kumar Bhatt	28.10.1958

2. The appointments will take effect from the date of issue of this notification.

PRASHANT NIKAM, Dir. (Police)

New Delhi, the 5th June 2012

No. I-14011/6/2011-IPS. I—Consequent upon the decision of the Union Public Service Commission to declare the inclusion of the name of Shri Prem Kumar Thakur (Date of Birth: 28.02.1966) as unconditional in the Select List of 2010, prepared for appointment to Himachal Pradesh Cadre of Indian Police Service by promotion by the Selection Committee in its meeting held on 24.10.2011 and approved by the Commission on 15.12.2011, as intimated vide their letter No. 7/6/2011-AIS dated 01.06.2012 and in continuation of interim orders dated 10.02.2012, 21.03.2012, 26.03.2012 and 30.04.2012 of the Hon'ble CAT, Chandigarh Bench in O.A. No. 1363-HP/2011 extending the validity period of the Select List till the final decision was taken by the quarters concerned for considering the case of the applicant for his promotion for the post in question and in exercise of the powers conferred by Sub-rule (1) of rule 9 of the Indian Police Service (Recruitment) Rules, 1954, read with 2nd proviso to Sub-regulation (1) of regulation 9 of the Indian Police Service (Appointment by Promotion) Regulations, 1955, the President is pleased to appoint Shri Prem Kumar Thakur (Date of Birth: 28.02.1966), a member of Himachal Pradesh Police Service to the Indian Police Service on probation and to allocate him to the Himachal Pradesh Cadre under Sub-rule (1) of the rule 5 of the Indian Police Service (Cadre) Rules, 1954. The appointment will take effect from the date of issue of this notification.

BALDEV RAJ, Under Secy.

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES & PENSIONS

(DEPTT. OF PERSONNEL & TRAINING)

New Delhi, the 14th May 2012

No. 13017/13/2011-AIS-I—In exercise of the powers conferred by Rule 6(1) of the Indian Administrative Service (Cadre) Rules, 1954, and with the concurrence of the Ministry of Home Affairs and Government of Andhra Pradesh, the Central Govt. hereby accords approval for inter cadre deputation of Shri Cholleti Prabhakar, IAS (AGMUT:2000) from AGMUT cadre to Andhra Pradesh cadre for a period of three years with effect from the date of his reporting for duty.

S. S. SHUKLA, Under Secy.

MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS

New Delhi, the 27th April 2012

No. 09/PB-I/2012—On attaining the age of superannuation, Shri R. S. Khokhar (DoB: 02.03.1952), an officer of the Integrated Grades II & III of General Cadre of Indian Foreign Service (B) retired from Government Service in the afternoon of 31st March, 2012.

DEEPIKA MISHRA, Administrative Officer (PB-I)

The 15th May 2012

No. 11/PB-I/2012—On attaining the age of superannuation, Shri N. Soman (DoB: 23.04.1952), an officer of the Integrated Grades II & III of General Cadre of Indian Foreign Service (B) retired from Government Service in the afternoon of 30th April, 2012.

2. This issues in supersession of Notification of even No. dated 2nd May, 2012.

DEEPIKA MISHRA, Administrative Officer (PB-I)

MINISTRY OF FINANCE
(DEPARTMENT OF REVENUE)

New Delhi, the 16th May 2012

No. 46 : (F. No. A-19013/11/2012-Ad.I)—In pursuance of Department of Personnel & Training's Order No. 5/7/2011-C.S.I (U) dated 15.12.2011, the President is pleased to appoint Shri B. K. Manthan, a permanent Section Officer in the CSS cadre of the Department of Science & Technology to Grade-I of the CSS (Under Secretary) on ad-hoc basis in the PB-3 of Rs. 15,600—39,100/- with grade pay of Rs. 6,600/- in the Department of Revenue w.e.f. 30.03.2012 (FN) and until further orders on the following conditions:—

- (i) the above ad-hoc promotion shall not confer any right to continue in the grade indefinitely or for inclusion in the Select List for regular appointment or to claim seniority in the Grade-I (Under Secretary) of Central Secretariat Service;
- (ii) ad-hoc appointment may be terminated at any point of time without giving any reason therefor;
- (iii) the above ad-hoc promotion of Shri B. K. Manthan shall be subject to the final outcome in the OA No. 3294/2009 titled Shri P. R. Sharma vs. UoI pending before the CAT, New Delhi; and
- (iv) CSL of SOs of 2003 is under challenge in several applications pending before CAT, New Delhi. Therefore, the adhoc promotion to the grade of US is also subject to the outcome of various O.As. mentioned in DoP&T O.M. No. 6/7/2011-CS.I dated 30.06.2011.

V. SREEKUMAR, Under Secy.

The 18th May 2012

No. 47 : (F. No. A-19012/5/2012-Ad.I)—The President is pleased to appoint Shri Pankaj Hazarika, Indian Defence Accounts Service (2000) as Deputy Secretary in the Department of Revenue for a period of four years w.e.f. 14.05.2012 (FN) or until further orders, whichever is earlier.

V. SREEKUMAR, Under Secy.

New Delhi, the 16th May 2012

No. 7/2012 (F. No. 32014/02/2011-Ad.IA)—The President is pleased to appoint the following PPS (Ad-hoc) of Central Secretariat Stenographers Service (CSSS) to the post of Principal Private Secretary (PPS) on regular basis in the Pay Band-3 (Rs. 15,600—39,100/-) + Grade Pay Rs. 6,600/- with effect from date mentioned against their names in pursuance to DoP&T's O.M. No. 3/3/2011-CS-II(A) dated 20th March, 2012:—

S. No.	Name	Date of regular Promotion
	(S/Shri)	
1.	Kamal Rani Soni	20.03.2012
2.	Meena Tulsiani	20.03.2012
3.	Gita Bhushan Sharma	07.05.2012
4.	Satish Kumar Choudhary	20.03.2012
5.	Sunil Kumar	20.03.2012
6.	O. P. Sharma	20.03.2012
7.	R. S. Negi	20.03.2012
8.	Raj Pal Singh	20.03.2012
9.	Vijay Takyar	20.03.2012
10.	Daya Chand	20.03.2012
11.	Meenakshi Gupta	20.03.2012
12.	Prem Lata Nagar	01.05.2012
13.	Raman Pathak	20.03.2012
14.	Dinesh Kemwal	20.03.2012
15.	Gurpal Kaur Soni	20.03.2012
16.	Vikram Nair	26.03.2012
17.	T. M. Kurien	20.03.2012
18.	Parsanna Kumari Sharma	20.03.2012
19.	M. K. Jerath	20.03.2012
20.	Vimla Rani	20.03.2012
21.	Geeta Rana	20.03.2012

RENUKA NAMBIAR, Under Secy.

No. 8/2012 (F. No. A-32014/4/2012-Ad.IA)—In pursuance of the Department of Expenditure, (CAS) O.M. 32014/2/2008-CAS dated 9th May, 2012, the President is pleased to continue the appointment of the following officers as Steno Grade 'A&B' (merged) (designated as Private Secretary) of Central Secretariat Stenographers Service (CSSS) on ad-hoc

basis upto 30.09.2012 or till regular officers becomes available or until further orders, whichever is earlier:—

S. No.	Name
	(S/Shri)
1.	N. Alarmel Mangai
2.	Bhagat Singh
3.	Pratap Singh Parmar
4.	Kanta Kumar
5.	Sandeep Behl
6.	Ravinder Nath
7.	P. S. Rawat
8.	Jyoti Mirani
9.	A. K. Samanta
10.	Satish Kumar
11.	Jagbir Singh
12.	Chanakya Kelkar
13.	Chander Shekhar Chhabra
14.	Veena Bajaj
15.	Sudha Sharma
16.	Mukesh Kumar
17.	Nafe Singh
18.	S. K. Sachdeva
19.	Jasoda
20.	Kiran Lakra
21.	Rose Minz
22.	Mahalakshmi Gopalakrishnan
23.	Vinod Kumar

2. All other terms and conditions already in force will remain unchanged.

RENUKA NAMBIAR, Under Secy.

DEPARTMENT OF ECONOMIC AFFAIRS

New Delhi, the 17th May 2012

No. A. 12011/4/2012-Admn.II—Consequent upon the inclusion of their names in the Select List year 2010 vide Department of Personnel & Training's OM No. A-3/3/2011-CS II dated 10.05.2012, the President is pleased to appoint the following Officers, working as Principal Private Secretary (PPS) of CSSS cadre on ad-hoc basis in the Ministry of

Finance Department of Economic Affairs, have been empanelled by the Department of Personnel & Training for regular appointment as Principal Private Secretary (PPS) of CSSS in the Pay Band-3 (Rs. 15,600—39,100/-) + Grade Pay of Rs. 6600/- with effect from the forenoon of 10.05.2012.

1. Shri C. Somanathan.
2. Shri Yogesh Sharma.

ASHOK KUMAR, Under Secy.

No. A.-12011/4/2012-Admn.II—Consequent upon the inclusion of their names in the Select List Year 2010 vide Department of Personnel & Training's OM No. A-3/3/2011-CS II dated 20.03.2012, the President is pleased to appoint the following Officers, working as Principal Private Secretary (PPS) of CSSS cadre on ad-hoc basis in the Ministry of Finance, Department of Economic Affairs, have been empanelled by the Department of Personnel & Training for regular appointment as Principal Private Secretary (PPS) of CSSS in the Pay Band-3 (Rs. 15,600—39,100/-+Grade Pay of Rs. 6600/- with effect from the forenoon of 20.03.2012.

1. Shri R. L. V. Prasada Rao
2. Shri A. K. Prasad
3. Shri Rajinder Kumar
4. Shri Virender Aggarwal
5. Smt. Nisha Arora
6. Smt. Sarla Tahiliani
7. Smt. Neeru Parashar
8. Smt. Sadhna Vaswani
9. Smt. Indra Rani Bahi
10. Smt. Veena Sachdev
11. Shri M. P. Kharbanda—(retired from Govt. Service on Superannuation on 30.04.2012)
12. Shri Chaganti Venkata Ramana Murty
13. Shri Vijay Singh Rohilla
14. Shri M. P. Varadharajan
15. Shri Devendra Singh
16. Shri H. K. Chawla
17. Shri Vijay Kumar Gulati
18. Shri Gopilal Mannewar

ASHOK KUMAR, Under Secy.

MINISTRY OF TEXTILES

New Delhi, the 25th May 2012

No. 1/38/2010-NIFT—The President is pleased to appoint Shri P. K. Gera, IAS (GJ : 85) as Director General, National Institute of Fashion Technology, on deputation basis, in the Scale of Pay of Rs. 37,400—67,000+10,000/- (GP) with effect from the forenoon of 21st May, 2012 for a period of three years or until further orders, whichever is earlier.

SANGEETA RAO, Under Secy.

MINISTRY OF CHEMICALS & FERTILIZERS (DEPARTMENT OF FERTILIZERS)

New Delhi-110001, the 20th January 2012

No. A-47011/1/2011-HR-II—In pursuance of the Ministry of Statistics & Programme Implementation's Order No. 12015/2/2011-SSS (P) dated 27.12.2011, Shri Ashok Kumar Singh (EC-3830), Statistical Investigator Grade-I (Group 'B' Gazetted) of Subordinate Statistical Service is taken on the strength of Department of Fertilizers w.e.f. 16.01.2012 (F/N) as Senior Investigator in the Pay Band-2 of Rs. 9,300—34,800/- with Grade Pay of Rs. 4,600/-.

2. Shri Ashok Kumar Singh was relieved by the National Sample Survey Organisation (Field Operations Division) on the Afternoon of 13th January, 2012 and joined the Department of Fertilizers on 16th January, 2012 (F/N), 14th & 15th January, 2012 being closed holidays he is not entitled to Transport T. A. Pay Advance etc. due to his own cost transfer joining time.

P. B. SAHU, Under Secy.

The 26th March 2012

No. A-19011/2/2012-HR-II—In pursuance of Department of Official Language, Ministry of Home Affairs Office Order No. 5/16/2011-O.L. (Sewa) dated 09.02.2012, Shri B. P. Joshi, Assistant Director (OL) in the Ministry of Petroleum & Natural Gas, New Delhi is appointed as Deputy Director (OL) in the Pay Band of PB-3 (Rs. 15,600—39,100/-) with Grade Pay of Rs. 6,600/- on ad-hoc basis in the Department of Fertilizers w.e.f. 29.02.2012 (F/N)

P. B. SAHU, Under Secy.

No. A-12011/7/2008-HR-II—In pursuance of Department of Official Language, Ministry of Home Affairs Office Order No. 5/15/2011-O.L. (Sewa) dated 10.02.2012, Shri Devi Prasad Mishra, Senior Translator in the Intelligence Bureau, Ministry of Home Affairs, New Delhi is appointed as Assistant Director (Official Language) in the Pay Band of PB-3 (Rs. 15,600—39,100/-) with Grade Pay of Rs. 5400/- on ad hoc basis in the Department of Fertilizers w.e.f. 02.03.2012 (F/N)

P. B. SAHU, Under Secy.

MINISTRY OF SCIENCE & TECHNOLOGY

(DEPARTMENT OF BIOTECHNOLOGY)

New Delhi, the 29th May 2012

No. A-32011/01/2011-Estt.—Consequent upon his repatriation from deputation at AICTE, New Delhi, the President is pleased to appoint Shri Sundeep Sarin, Scientist 'E' (NBDB) in this Department as Scientist 'F' on in-situ promotion under Flexible Complementing Scheme in the PB-4 of Rs. 37,400—67,000/- plus Grade Pay of Rs. 8,900/- with effect from the forenoon of 29th May, 2012 and until further orders.

BEENA E. CHAKRAVARTY, Under Secy.

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

New Delhi-110011, the 23rd May 2012

No. A.12025/24/2008-CHS.I—On the recommendations of the Union Public Service Commission, the President is pleased to appoint Dr. Reena Kumari Sharma in the Medical Officers Grade of the Central Health Service in the Scale of Pay of Rs. PB-3 [Rs. 15,600—39,100] + Grade Pay Rs. 5,400/- in a temporary capacity with effect from the forenoon of 2nd December, 2009 until further orders. Dr. Reena Kumari Sharma is posted as Medical Officer at All India Institute of Hygiene and Public Health, Kolkata. She will be on probation for a period of two years.

M. K. SHARVAR, Under Secy.

(DEPARTMENT OF HEALTH & FAMILY WELFARE)

New Delhi, the 11th May 2012

No. A. 22012/3/2012-Estt.III.—In pursuance of Department of Economic Affairs' Order No. P-3/2011 dated 05.08.2012, Sh. J. Rajesh Kumar has assumed charge of the post of Junior Administrative Grade of IES (PB-3 with Grade Pay Rs. 7,600/-) as Joint Director a Group 'A' Gazetted post in the Department of Health & Family Welfare with effect from 04.05.2012 (FN).

ANIL KUMAR, Under Secy.

MINISTRY OF AGRICULTURE
(DEPARTMENT OF AGRICULTURE & COOPERATION)

New Delhi, the 23rd April 2012

No. A-19012/9/2007-EA—Consequent upon her posting as Economic Adviser, Ministry of Women and Child Development by the Department of Economic Affairs (IES Division) vide their Order No. T-14/2012 dated 2.4.2012 issued under F. No. 13016/2/2012-IES, Smt. Rugmini Parmar, Adviser, Commission for Agricultural Costs and Prices is hereby relieved of her duties w.e.f. forenoon of 02.04.2012.

A. K. ARORA, Under Secy.

DEPARTMENT OF ANIMAL HUSBANDRY, DAIRYING
& FISHERIES

New Delhi, the 31st May 2012

No. A-15012/02/2012-Admn.I—On attaining the age of Superannuation, Ms. Nutan Wadhi, Section Officer in this Department retires from Government Service with effect from the afternoon of 31.05.2012.

R. S. JAYAL, Under Secy.

No. A-19011/12/2012-Admn.I—The President is pleased to appoint Shri Gokul Chandra Pati, IAS (OR : 78) as Officer on Special Duty in the rank and pay of Secretary w.e.f. the forenoon of 01.06.2012 in the Apex Scale, on his posting in the Department of Animal Husbandry, Dairying and Fisheries vide DoP&T's Order No. 9/26/2012-EO (SM.I) dated 26th May, 2012.

R. S. JAYAL, Under Secy.

New Delhi, the 5th June 2012

No. 2-37/2010-Fy(Admn.)—The President is pleased to appoint : (i) Shri Sijo P. Varghese, (ii) Shri Vinod Kumar Mudumala, and (iii) Shri S. Ramachandran to the post of Senior Fisheries Scientist (General Central Service, Group 'A' Gazetted, Non-Ministerial) in Fishery Survey of India, Mumbai under the Ministry of Agriculture, Department of Animal Husbandry, Dairying and Fisheries in the Pay Band (PB-3) of Rs. 15,600—39,100/- plus Grade Pay of Rs. 6,600/- with effect from (i) 27.2.2012 (FN), (ii) 27.2.2012 (FN) and (iii) 24.2.2012 (FN) respectively in a temporary capacity and until further orders.

SUDEEPA KOHLI, Under Secy.

MINISTRY OF PANCHAYATI RAJ

New Delhi, the 21st May 2012

No. A-19012/1/2010-Estt.—Shri Bharat Bhushan, Assistant Director in the Ministry of Panchayati Raj, has retired from Government Service with effect from the afternoon of 30th April, 2012 on attaining the age of Superannuation.

R. SHIVA KUAMR, Under Secy.

MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT
(DEPARTMENT OF HIGHER EDUCATION)

New Delhi, the 25th May 2012

No. F-15-2467/2009-E.I.—Consequent upon her transfer from Ministry of Human Resource Development (Department of Higher Education) to Ministry of Tribal Affairs vide Department of Personnel & Training's Order No. 4/16/2012-EO(SM-I) dated 24th May, 2012, Ms. Vibha Puri Das, IAS (UK : 76) has relinquished charge of Secretary, Department of Higher Education with effect from the forenoon of 25th May, 2012.

RAJESH KUMAR SINGH, Under Secy.

No. F-15-2405/2008-E.I.—The President is pleased to appoint Shri Ashok Thakur, IAS (HP : 77) presently Special Secretary, Department of Higher Education, Ministry of Human Resource Development as Secretary, Department of Higher Education, Ministry of Human Resource Development (Department of Higher Education) with effect from the forenoon of 25th May, 2012.

RAJESH KUMAR SINGH, Under Secy.

MINISTRY OF WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT

New Delhi, the 21st May 2012

No. 4-37/2009-Admn.—In pursuance of Department of Personnel and Training's Order 9/20/2012-EO(SM-I) dated 17.04.2012, the President is pleased to appoint Shri Sudhir Kumar, IAS, (UP : 78) as Special Secretary in the Ministry of Women and Child Development w.e.f 17.4.2012 on in-situ basis by temporarily upgrading the post of Additional Secretary.

NAVEEN YADAV, Under Secy.

The 27th March 2012

No. 4-12/2008-Admn.—Consequent upon his attaining the age of Superannuation, Shri Brish Bhan Gupta, Under Secretary in the Ministry of Women and Child Development shall stand retired from Government Service with effect from 31.03.2012 (Afternoon).

NAVEEN YADAV, Under Secy.

The 25th April 2012

No. 22-39/2011-Admn.—In pursuance of Department of Economic Affairs' Order No. 13016/3/2011-IES dated 10.04.2012, the President is pleased to appoint Shri Amit Ray (IES : 95) as Director in the Pay Band of Rs. 37,400—67,000/- (PB-4) with Grade Pay of Rs. 8,700/- in Ministry of Women and Child Development w.e.f 20th April 2012 till further orders.

NAVEEN YADAV, Under Secy.

The 1st May 2012

No. 5-2/2012-Admn.—Consequent upon inclusion of his name to the grade of Principal Private Secretary (PPS) of CSSS in the Select List for the Year 2010 vide DoPT's OM No. 3/3/2011-CS-II(A) dated 20th March, 2012, the President is pleased to appoint Shri Sunil Sehgal, Private Secretary (PS) as Principal Private Secretary (PPS) on regular basis in the Pay Band (PB-3) Rs. 15,600—39,100/- with Grade Pay of Rs. 6,600/- in the CSSS cadre of Ministry of Women and Child Development w.e.f 19.4.2012 (FN).

NAVEEN YADAV, Under Secy.

MINISTRY OF TRIBAL AFFAIRS

New Delhi, the 17th May 2012

No. 11019/2/2005-Estt.—In pursuance of Department of Economic Affairs' Order No. 13016/3/2012-IES dated

04.05.2012, the President is pleased to relieve Shri S. N. Tobria, Economic Adviser in the Ministry of Tribal Affairs with effect from the afternoon of 17.05.2012 to take up his new assignment as Economic Adviser, Commission for Agricultural Costs and Prices (CACP) Ministry of Agriculture.

2. The services of Shri S. N. Tobria, Economic Adviser in the Ministry shall stand placed at the disposal of Economic Adviser, Commission for Agricultural Costs and Prices (CACP) Ministry of Agriculture w.e.f. 17.05.2012

N. RAMAKRISHNAN, Under Secy.

New Delhi, the 25th May 2012

No. 19011/5/2012-Estt.—The President is pleased to appoint Smt. Vibha Puri Das, IAS (UK : 76) to the post of Secretary in the Ministry of Tribal Affairs with effect from the forenoon of 25.05.2012.

PURNIMA TUDU, Under Secy.

**MINISTRY OF COMMUNICATIONS AND
INFORMATION TECHNOLOGY**

**(DEPARTMENT OF ELECTRONICS AND INFORMATION
TECHNOLOGY)**

New Delhi-110003, the 22nd May 2012

No. 3(9)/2010-Pers.I—The President is pleased to appoint on promotion the following Scientist 'D' of Department of Electronics and Information Technology as Scientist 'E' in the Pay Band-4, Rs. 37,400—67,000/- plus Grade Pay of Rs. 8,700/- p.m. w.e.f. 18.05.2012 subject to the final outcome of Special Leave Petition filed by National Informatics Centre (NIC) in Supreme Court of India on a decision of the High Court of Orissa in W.P. (C) No. 7080 of 2005, Judgement delivered on 26.09.2008 :—

Sl. No.	Name
---------	------

1. Shri D. P. Singh (E. Code : 253)
2. Shri Ramesh Chand (E. Code : 258)

GIRISH SAHAI, Jt. Dir.

No. 3(9)/2010-Pers.I—The President is pleased to appoint on promotion the following Scientist 'B' of Department of Electronics and Information Technology as Scientist 'C' in the Pay Band-3, Rs. 15,400—39,100/- plus Grade Pay of Rs. 6,600/- p.m. w.e.f. 18.05.2012 subject to the final outcome of Special Leave Petition filed by National Informatics Centre (NIC) in Supreme Court of India on a decision of the High Court of Orissa in W.P. (C) No. 7080 of 2005, Judgement delivered on 26.09.2008 :—

Sl. No.	Name
---------	------

1. Smt. Ruchi Gola (E. Code : 952)
2. Shri Bhupendra Singh Awasya (E. Code : 953)

1	2
3.	Shri Mohd. Akram Khan (E. Code : 956)
4.	Shri Sani Abhilash G. I. (E. Code : 958)
5.	Shri Ashutosh Bahuguna (E. Code : 959)
6.	Shri Noorul Ameen A. (E. Code : 962)

GIRISH SAHAI, Jt. Dir.

The 31st May 2012

No. 4(465)/89-Pers.I—On attaining the age of Superannuation, Shri Satvir Singh, Joint Director (Emp. Code-215), Department of Electronics & Information Technology, Ministry of Communications & Information Technology retires from Service on 31.05.2012.

GIRISH SAHAI, Jt. Dir.

No. 16(3)/2011-Pers.I—Consequent upon issue of Order No. 16(3)/2011-Pers.I dated 26.04.2012 for cancellation of the Limited Departmental Competitive Examination 2010 for the post of Section Officer, the Notification No. 3(2)/2010-Pers.I dated 10.09.2010 conveying promotion of following officers as Section Officers stands cancelled :—

1. Smt. Ansa John
2. Shri Devender Pal
3. Shri T. P. Mohan

GIRISH SAHAI, Jt. Dir.

NATIONAL INFORMATICS CENTRE

New Delhi-110003, the 29th May 2012

No. PF/39/NIC/2012-Adm-I—Consequent upon his selection as Controller of Certifying Authorities in Department of Electronics and Information Technology, New Delhi, the President is pleased to accept the technical resignation of Shri T. A. Khan, Emp. Code-39, from the post of Scientist 'G' (Deputy Director General) National Informatics Centre, New Delhi with effect from 28.05.2012 (A.N.) and he stands relieved from his duties from the same day.

R. M. NAIR, Jt. Dir. (Adm-I)

The 30th May 2012

No. PF/6628/NIC/2011-Adm-I—The President is pleased to accept the resignation of Ms. Jigyasa Bisaria, (Emp. Code-6628) from the post of Scientist 'C', NIC-Hqrs.,

New Delhi with effect from the afternoon of 18.01.2012 and she stands relieved from her duties from the same day.

R. M. NAIR, Jt. Dir. (Adm-I)

The 31st May 2012

No. PF/2657/NIC/2012-Adm-I—Dr. V. Subba Rao, Scientist "E" (Emp. Code-2657), National Informatics Centre, New Delhi is retiring on superannuation from Government Service with effect from afternoon of 31st May, 2012 and he stands relieved from his duties from the same day.

R. M. NAIR, Jt. Dir. (Adm-I)

New Delhi-110003, the 31st May 2012

No. 6117/NIC/2012-Adm-II—The Director General, NIC is pleased to accept the resignation of Ms. Divya Sharma, (Emp. Code-6117) from the post of Scientific Officer/Engineer 'SB', National Informatics Centre—Headquarters, New Delhi with effect from afternoon of 31.05.2012 and she stands relieved from her duties from the same day.

SUBHASH DUTTA, Dy. Dir. (Adm-II)

MINISTRY OF RAILWAYS

(RAILWAY BOARD)

New Delhi, the 22nd May 2012

No. ERB-I-2011/2/60—Shri Nihar Ranjan Dash, SG/IRSEE, Director, Electrical Engineering (Development). Railway Board has been promoted to Senior Administrative Grade and appointed as Executive Director, Electrical Engineering (Development), Railway Board with effect from the afternoon of 07.05.2012.

V. K. GUPTA, Secy.
(Railway Board)

MINISTRY OF WATER RESOURCES

New Delhi, the 23rd May 2012

No. 3/2012 (F. No. 2/3/2011-Admn.)—The President is pleased to appoint Shri Sunil Kumar Kohli, (IDAS : 1981) as Joint Secretary and Financial Adviser in the Ministry of Water Resources in the Pay Band-4, Rs. 37,400—67,000/- plus Rs. 10,000/- (Grade Pay) with effect from the forenoon of 21.05.2012, for a period of five years, or until further orders, whichever is earlier.

L. P. SHARMA, Under Secy.

प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, फरीदाबाद द्वारा मुद्रित
एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा प्रकाशित, 2012
PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD AND
PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 2012